

January 09, 2026

Manager-Listing Compliance
BSE Limited
Floor 25, P J Towers, Dalal Street
Mumbai -400001

Script Code: 532640

Manager-Listing Compliance
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai-400051

SYMBOL: CYBERMEDIA

Sub.: Submission of Advertisement for the Rights Issue First and Final Call Record Date

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Regulation 84 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, please find enclosed copy of Advertisement with respect to fixation of Record Date for the First and Final Call on Partly paid-up equity shares of the Company issued on a rights basis, published in the newspapers, 'Business Standard' English Edition, and Hindi Edition, both dated January 09, 2026.

Advertisement copy is also available on the Company's website at www.cybermedia.co.in.

Please take the above information on your record.

Yours truly,
For Cyber Media (India) Limited

Anoop Singh
Company Secretary
M. No.: F8264

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, COURT-V, NEW DELHI (PURSUANT TO SECTION 66 OF THE COMPANIES ACT, 2013, READ WITH RULE 8 OF THE NCLT (PROCEDURE FOR REDUCTION OF SHARE CAPITAL OF COMPANY) RULES, 2016) COMPANY PETITION NO. 02/ND/2025 IN THE MATTER OF THE REDUCTION OF SHARE CAPITAL OF KAMAL RENU CREDIT & INVEST PRIVATE LIMITED CIN : U74899DL1993PTC051662 REGISTERED OFFICE : M-3, PRATAP BHAWAN-5, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI-110002 E-MAIL : KAMALRENUNBFC@GMAIL.COM

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-Court V, by its order dated 18th December, 2025 passed in Company Petition No. 02/ND/2025, has approved the reduction of share capital of Kamal Renu Credit & Invest Private Limited.

The reduction has been affected by the set-off of accumulated losses amounting to INR 15,75,59,240/- (Rupees Fifteen Crores Seventy-Five Lakhs Fifty-Nine Thousand Two Hundred and Forty Only) against the balance lying in the Securities Premium Account of INR 36,45,85,450/- (Rupees Thirty-Six Crores Forty-Five Lakhs Eighty-Five Thousand Four Hundred and Fifty Only).

Pursuant to the said reduction, the Securities Premium Account stands reduced as under:

"The Securities Premium Account henceforth reduced from INR 36,45,85,450/- to INR 20,70,26,210/-."

The said orderunder Section 66(5) of the Companies Act, 2013, has been filed with the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana. Any person desirous of obtaining a copy of the said order and the approved minute may apply to the undersigned at the address mentioned below.

For Kamal Renu Credit & Invest Private Limited

Sd/-

Advocates for the Petitioner Company F-14/15, Second Floor, Shivam House, Middle Circle, Connaught Place, New Delhi-110001

Mobile : 99993-66607/98991-99120

Email : complianceandlegal@pnaml.co

Date : 09.01.2026

Place : New Delhi

VTM LIMITED

Regd. Off: SULAKARAI, VIRUDHUNAGAR
CIN: L17111TN1946PLC003270

NOTICE

Notice is hereby given that as per Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **14.01.2026, Wednesday at 10.00 AM** via video conference to consider and approve the proposal for listing of the Company's equity shares on the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and to consider and approve the engagement of CS Amogh Diwan and CS Rohan Shinde, Practicing Company Secretaries, as consultants to assist the Company in documentation, compliance review, certifications and liaison with NSE, SEBI and other authorities in connection with the proposed listing as specified in the Notice of the Board Meeting.

The above details can be viewed on the website of BSE, at www.bseindia.com.

Place: Sulakrai, Virudhunagar.
Date : 07.01.2026
For VTM LIMITED
K.PREYATHARSHINE
Company Secretary

TVS M

Regd office: "Ch

Transfer of L Company to Ir

Notice is hereby given under the Companies Act, 2013 (Accounting, Audit, T

The Rules contain a provision for transfer of shares, if held for more than 7 years or more.

The Company has so far not received any notice from the shareholders who have held the shares for more than 7 consecutive years.

Shareholders who hold shares for more than 7 years and wish to transfer the same, are requested to write to Integrated Financial Services, Ltd, Agent of the Company, 10th Floor, T Nagar, Chennai - 600017, Tamil Nadu, India, to claim for the unclaimed dividends. The unclaimed dividends will be paid to the shareholders within 3 months of completion of three years from the date of issue of the notice of unclaimed dividends.

Further, in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company's website will be updated with the details of shareholders.

In case the concerned shareholder does not apply for the same, the application has to be made by the shareholder.

Place : Chennai
Date : 9th January 2026

CyberMedia

CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED

Corporate Identification Number: L92114DL1982PLC014334

Registered Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017, India

Corporate Office: B-35, Sector -32 Institutional Area, Gurgaon, Haryana, India, 122003

Contact Person: Mr. Anoop Singh, Company Secretary and Compliance Officer

Telephone: +91-124-423 7517 | E-mail id: info@cybermedia.co.in | Website: www.cybermedia.co.in

NOTICE OF RECORD DATE FOR FIRST AND FINAL CALL ON PARTLY PAID-UP RIGHTS EQUITY SHARES OF THE COMPANY

Notice is hereby given that the Rights Issue Committee ("Committee") of the Board of Directors of Cyber Media (India) Limited ("the Company"), at its meeting held on Thursday, January 08, 2026, has approved the making of the First and Final Call ("Call") on the partly paid-up equity shares of the Company issued on September 02, 2025 pursuant to the Letter of Offer dated July 21, 2025 ("Letter of Offer").

The Call amounts to 50% of the issue price of ₹ 15.80 (which comprises ₹ 10 towards face value and ₹ 5.80 towards securities premium) per equity share, i.e. ₹ 7.90 (which comprises ₹ 5 towards face value and ₹ 2.90 towards securities premium) per equity share, ("Call Money"), outstanding on 51,62,479 (Fifty One Lakh Sixty Two Thousand Four Hundred Seventy Nine) partly paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each, issued by the Company on a rights basis.

Further, the Committee has fixed **Wednesday, January 14, 2026**, as the Record Date for the purpose of determining the holders of partly paid-up equity shares of the Company bearing ISIN: IN9278G01019, to whom the Call Notice will be sent.

The said Record Date has been duly intimated to BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE), where the equity shares of the Company are listed.

Detailed information in relation to the Call including the Call payment schedule and other relevant terms and conditions shall be provided in the Call Notice to be sent to the eligible shareholders in due course.

This Notice is issued in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors of
Cyber Media (India) Limited

Sd/-

Anoop Singh

Company Secretary and Compliance Officer

Date: January 08, 2026

Place: New Delhi

नियमन 1992 में निर्धारित नियमों का स्थान लेंगे। नए नियमों में स्टॉक ब्रोकरें को अन्य वित्तीय क्षेत्र के प्राधिकरणों के नियमन वाली गतिविधियां चलाने की अनुमति होगी। ब्रोकर अपने ग्राहकों को आकस्मिक निवेश सलाह भी दे सकते हैं। स्टॉक ब्रोकरों को कई शर्तों के साथ अपनी स्वयं की संपत्ति/निधि से अंडरराइटर के रूप में काम करने की भी अनुमति दी गई है। हालांकि, परामर्श पत्र में प्रस्तावित एलागेरिटम ट्रेडिंग की परिभाषा को अंतिम अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है।

बीएस

एफपीआई के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा सुगम

बाजार नियामक ने गुरुवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की, जिसके तहत वे साझा आवेदन पत्र के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) प्राप्त करके आसानी से पंजीकरण कर सकेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने कहा, यह नई सुविधा एफपीआई पंजीकरण आवेदन और डीएससी आवेदन को एक ही एकीकृत प्रक्रिया में शामिल करती है, जिससे एफपीआई ग्राहकों का पंजीकरण आसान हो जाता है। एफपीआई को 2023 में पंजीकरण संबंधी दस्तावेजों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। यह नई सुविधा एफपीआई पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है क्योंकि अब वे साझा आवेदन पत्र जमा करते समय सीधे डीएससी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बीएस

मुंबई, 8 जनवरी

विशेष निवेश फंड (एसआईएफ) में हलचल बढ़ने जा रही है। क्योंकि अपनी पहली निवेश पेशकश जुटे हैं।

बंधन म्युचुअल फंड आनंद तहत अपने एसआईएफ के परिचालन करेगा। कंपनी ने हाइब्रिड लॉन्च-शॉर्ट फंड एसआईएफ क्षेत्र में प्रवेश की आईसीआईसीआई प्रूडेंशियर (आईसिप एसआईएफ के 360 बन एमएफ (डायना एस तहत) ने अपनी पहली योजना दस्तावेज भारतीय प्रतिभूति अंबोर्ड (सेबी) के पास जमा कर

म्युचुअल फंड उद्योग में उपलब्ध योजना के सेगमेंट में पंच फंड सात फंड शामिल हैं। वर्कांट म्युचुअल तीन योजनाओं के साथ लॉन्च सबसे आगे है। एसबीआई म्युचुअल एडलवाइस म्युचुअल फंड, म्युचुअल फंड और टाटा म्युचुअल एक-एक योजना शुरू की है।

नवंबर 2025 तक इनमें योजनाओं ने अपनी लॉन्च अवधि अंत तक अपनी लॉन्च अवधि और 2,900 करोड़ रुपये का प्रबंधन कर रही थीं। इसकी तेजी की संभावना है। लेकिन इन श्रेणियों में केंद्रित रहने की हाइब्रिड लॉन्च शॉर्ट फंड श्रेणी हाउसों की सबसे अधिक रुचि

11/01/2026 | नियमन 1992 | नियमन 2026

CHIEF GENERAL MANAGER (PRO)



CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED

Corporate Identification Number: L92114DL1982PLC014334

Registered Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017, India

Corporate Office: B-35, Sector -32 Institutional Area, Gurgaon, Haryana, India, 122003

Contact Person: Mr. Anoop Singh, Company Secretary and Compliance Officer

Telephone: +91-124-423 7517 | E-mail id: info@cybermedia.co.in | Website: www.cybermedia.co.in

NOTICE OF RECORD DATE FOR FIRST AND FINAL CALL ON PARTLY PAID-UP RIGHTS EQUITY SHARES OF THE COMPANY

Notice is hereby given that the Rights Issue Committee ("Committee") of the Board of Directors of Cyber Media (India) Limited ("the Company") at its meeting held on Thursday, January 08, 2026, has approved the making of the First and Final Call ("Call") on the partly paid-up equity shares of the Company issued on September 02, 2025 pursuant to the Letter of Offer dated July 21, 2025 ("Letter of Offer").

The Call amounts to 50% of the issue price of ₹ 15.80 (which comprises ₹ 10 towards face value and ₹ 5.80 towards securities premium) per equity share, i.e. ₹ 7.90 (which comprises ₹ 5 towards face value and ₹ 2.90 towards securities premium) per equity share, ("Call Money"), outstanding on 51,62,479 (Fifty One Lakh Sixty Two Thousand Four Hundred Seventy Nine) partly paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each, issued by the Company on a rights basis.

Further, the Committee has fixed Wednesday, January 14, 2026, as the Record Date for the purpose of determining the holders of partly paid-up equity shares of the Company bearing ISIN: IN9278G01019, to whom the Call Notice will be sent.

The said Record Date has been duly intimated to BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE), where the equity shares of the Company are listed.

Detailed information in relation to the Call including the Call payment schedule and other relevant terms and conditions shall be provided in the Call Notice to be sent to the eligible shareholders in due course.

This Notice is issued in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors of
Cyber Media (India) Limited

Sd/-

Anoop Singh

Company Secretary and Compliance Officer

Date: January 08, 2026

Place: New Delhi